



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 09.01.2021

1-थाना दादरी पुलिस, एसओजी टीम व स्टार 2 टीम के संयुक्त प्रयास से पुलिस मुठभेड के दौरान चावल व्यापारी से लूट करने वाले 01 लुटेरा बदमाश घायल अवस्था में व 01 बदमाश कांबिंग के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 06 लाख 51 हजार रूपये, एक मोटर साइकिल व अवैध शस्त्र मय कारतूस बरामद।

दिनांक 08.01.2021 को थाना दादरी पुलिस, एसओजी टीम व स्टार 2 टीम के संयुक्त प्रयास से चेकिंग के दौरान रुपवास बाईपास से खेडी भनौता को जाने वाले रास्ते पर पुलिस मुठभेड में चावल व्यापारी से लूट करने वाले 02 लुटेरे बदमाश 1. पंकज उर्फ बादशाह निवासी लोनी जिला गाजियाबाद को घायल अवस्था में व 2. विमल निवासी ग्राम अतराडा कस्बा खरखोदा जिला मेरठ को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मु0अ0स0 944/2020 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित लूट के 06 लाख 51 हजार रूपये ,एक मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट व 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस बरामद किये गये है।

उक्त बदमाशों द्वारा दिनांक 30.12.2020 को दादरी क्षेत्र में बिसाहडा रोड गऊशाला के पास चावल व्यापारी से 13 लाख 20 हजार रूपये की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था।

### **अभियुक्तो का विवरण-**

1. पंकज उर्फ बादशाह पुत्र सुभाष निवासी सबलू गढी थाना लोनी गाजियाबाद।
2. विमल जाटव पुत्र अशोक निवासी अतराडा थाना खरखौदा मेरठ।

## आपराधिक इतिहास का विवरण-

### पंकज उर्फ बादशाह

1. मु0अ0सं0 944/2020 धारा 392/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 18/2021 धारा 307 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 19/2021 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

### विमल जाटव

1. मु0अ0सं0 944/2020 धारा 392/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 18/2021 धारा 307 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 20/2021 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण-

1. मु0अ0सं0 944/2020 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित लूट के 06 लाख 51 हजार रूपये
2. एक मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट
3. 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस

## 2-थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 09.01.2021 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के बिजली घर सेक्टर 6 के पास से चोरी के मोबाइल फोन के साथ 02 अभियुक्त 1. राहुल वर्मा पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम हरौला थाना सेक्टर 20 2. आरिफ अली पुत्र मोहब्बत अली निवासी मौसम विहार पानी की टंकी के पास थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से मु0अ0सं0 20/2021 धारा 379 भादवि से संबंधित 01 मोबाइल फोन सैमसंग कंपनी का व 01 मोबाइल फोन वीवो कंपनी रंग नीला चोरी का बरामद किया गया है।

## अभियुक्तों का विवरण-

1. राहुल वर्मा पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम हरौला थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।

2.आरिफ अली पुत्र मोहब्बत अली निवासी मौसम विहार पानी की टंकी के पास थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद।

### **अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 25/2021 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण-**

चोरी के 02 मोबाइल फोन

# दिनांक 09.01.2021 को पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में चलाए गए जातिगत नाम लिखे/स्टीकर लगे वाहनों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत 594 वाहनों का चालान किया गया व स्टीकरों को हटवाया गया।